

सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 की धारा (4) के अधीन

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रं.1
झाबुआ

लोक प्राधिकारियों का दायित्व
01 अक्टूबर 2005


सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, झाबुआ के लोक प्राधिकारियों का दायित्व

1. संगठनात्मक परिचय:—

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, झाबुआ के अन्तर्गत झाबुआ जिले के छः विकासखण्ड क्रमशः झाबुआ, मेघनगर, रामा, पेटलावद, थांदला, राणापुर कार्य क्षेत्र में आते हैं। इसके अन्तर्गत तीन उपसंभाग कार्यरत हैं। ये उपसंभाग थांदला, पेटलावद, राणापुर में संचालित हैं।

इस कार्यालय के कार्यालयीन संरचना के अन्तर्गत मुख्यतः तीन कक्ष कार्यरत हैं। कार्य कक्ष के अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं की तकनीकी कार्य, लेखा कक्ष के अन्तर्गत योजनाओं के निविदा आमंत्रण, ठेकेदारों के भुगतान एवं बजट से संबंधित कार्य किया जाता है। इसी प्रकार स्थापना कक्ष के अन्तर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन आहरण, सर्विस रिकार्ड, सामान्य प्रशासनिक कार्य इत्यादि संपादित किये जाते हैं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्रो, जल संसाधन संभाग क्रं.1 झाबुआ



2.0 संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य (अध्याय 2)

| | | |
|------|--|---|
| 2.1 | लोक प्राधिकरण के उद्देश्य | झाबुआ जिले के छः विकासखण्ड झाबुआ, मेघनगर, रामा, पेटलावद, थांदला, राणापुर के सिंचाई योजनाओं का रखरखाव सर्वेक्षण एवं निर्माण का दायित्व |
| 2.2 | लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन | कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई क्षमता में वृद्धि तथा निर्मित योजनाओं से कमाण्ड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना। |
| 2.3 | लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग का कार्यालय, झाबुआ में दिनांक (1963 से प्रारंभ किया गया है।) |
| 2.4 | लोक प्राधिकरण के कर्तव्य | कार्य क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण निर्माण एवं रखरखाव। |
| 2.5 | लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य | |
| 2.6 | लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण | |
| 2.7 | लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा | इसके अन्तर्गत तीन उपसंभाग कार्यरत है। जो कि थांदला, पेटलावद, राणापुर है। |
| 2.8 | लोक प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं | निरंक |
| 2.9 | जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था | |
| 2.10 | जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था | |
| 2.11 | मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें) | कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रं.1 झाबुआ 457661 |
| 2.12 | कार्यालय के खुलने का समय : कार्यालय के बन्द होने का समय : | प्रातः 10.30 बजे सायं : 5.30 बजे |

3.0 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

| | | |
|-----------|---|---|
| पद का नाम | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 झाबुआ | |
| शक्तियां | प्रशासकीय वित्तीय अन्य | संभाग के अधीन समस्त अधिकारियों का प्रशासनिक नियंत्रण। क्षेत्र की सभी सिंचाई योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति (200 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता वाली) रु. 50 हजार तक सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति, मुख्य अभियंता नर्मदा ताप्ती कछार से प्राप्त बजट आवंटन पर नियंत्रण एवं वितरण) |
| कर्तव्य | योजनाओं का लक्ष्यानुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण, सर्वेक्षण एवं रखरखाव आदि | |

अधिनस्थ कर्मचारियों के कर्तव्य

| क्रमांक | कक्ष | कर्तव्य एवं कार्य |
|---------|--------------|--|
| 1 | स्थापना कक्ष | स्थापना के कार्य एवं संबंधितों का वेतन आदि के रिकार्ड का संधारण एवं सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी कार्यों का संचालन |
| 2 | सामान्य कक्ष | वित्तीय विषयों यथा बजट, आवंटन, व्यय, निविदाएँ आदि का संचालन एवं नियंत्रण का कार्य |
| 3 | तकनीकी कक्ष | योजनाओं के तकनीकी विषयों से संबंधित दस्तावेजों का संधारण, निर्माण कार्यों का रूपांकन, गुणवत्ता नियंत्रण, रखरखाव एवं तकनीकी स्वीकृति संबंधी कार्यों का संधारण |

4.0 कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

अधिनियम

1. म.प्र. सिंचाई अधिनियम 1931
2. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999
3. म.प्र. लेखा संहिता

मैनुअल

1. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-1
2. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-2
3. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-3

नियम

1. म.प्र. सिंचाई अभियांत्रिकी एवं भू-भौतिकी (राजपत्रित भर्ती नियम 1965)
2. म.प्र. सिंचाई (अराजपत्रित) भर्ती नियम 1969

परिपत्र

1. म.प्र. जल संसाधन विभाग द्वारा जारी समस्त तकनीकी परिपत्र
2. म.प्र. जल संसाधन विभाग की प्रचलित एकीकृत दर सूची 2003
3. म.प्र. जल संसाधन विभाग के स्पेसिफिकेशन्स

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और
अभिलेख की प्रति कहां से
प्राप्त कर सकते हैं?

पता : कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रं. 1
झाबुआ

झाबुआ :- 457661
दूरभाष : 07392-244225

फैक्स : 07392-

ई-मेल : - eewrdjhabua@rediffmail.com

अन्य : -

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख : विभागीय प्रावधान अनुसार
की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क :
(यदि कोई हो)

5.0 नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

5.1 नीति निर्धारण हेतु :

| क्र. सं. | विषय/कृत्य का नाम | क्या इस विषय में जनता की भगीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं) | जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था |
|----------|-----------------------------|--|--|
| 1 | जल उपयोगिता समिति | हां | सिंचाई तालाब योजनाओं से लाभान्वित कृषक एवं कलेक्टर (अध्यक्ष) द्वारा मनोनीत सदस्य |
| 2 | जल उपभोक्ता संथार्ये कुल 37 | हां | अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचित सदस्य |

5.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु :

| क्र. सं. | विषय/कृत्य का नाम | क्या इस विषय में जनता की भगीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं) | जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था |
|----------|---------------------------------------|--|---|
| 1 | सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी | हां | सिंचाई प्रबंधन अधिनियम 1999 की व्यवस्था अनुसार |

6.0 लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (categories) के अनुसार विवरण

(अ) कार्य कक्ष द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेखों का विवरण

| स. क्रं. | दस्तावेज का नाम | दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि | दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण (Nature & Content) | अभिलेखों की अवधि |
|----------|--|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | सिंचाई कार्यों के लिये तकनीकी परित्रों का संचालन | पुस्तक | तकनीकी परिपत्र एवं निर्देश | |
| 2 | म.प्र. कार्य/विभाग मुनुअल भाग-I,II,III | पुस्तक | विभाग में कार्य करने हेतु निर्देश एवं अधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य | |
| 3 | प्रशासकीय स्वीकृति | रजिस्टर | सिंचाई कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण | |
| 4 | तकनीकी स्वीकृति | रजिस्टर | सिंचाई कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का विवरण | |
| 5 | योजनावार सिंचाई का विवरण | रजिस्टर | प्रत्येक तालाब से की गई सिंचाई का लेखा-जोखा | |
| 6 | सर्वेक्षित योजना का विवरण | रजिस्टर | चिन्हित योजनायें | |

(ब) स्थापना कक्ष द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेखों का विवरण

| स. क्रं. | दस्तावेज का नाम | दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि | दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण (Nature & Content) | अभिलेखों की अवधि |
|----------|-----------------------|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | सेवा के मूलभूत नियम | पुस्तक | सेवा शर्तें एवं पेंशन, अवकाश, यात्रा भत्ते आदि संबंधित नियम | |
| 2 | सेवा आचरण नियम | पुस्तक | कर्मचारियों के आचरण संबंधित नियम एवं निर्देश | |
| 3 | सा.भविष्य निधि अग्रिम | रजिस्टर | अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा लिये गये अग्रिम का ब्योरा | |
| 4 | अग्रिम रजिस्टर | रजिस्टर | त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम, वाहन अग्रिम, गृह निर्माण एवं विभिन्न अग्रिम का विवरण | |
| 5 | गोपनीय प्रतिवेदन | रजिस्टर | गोपनीय प्रतिवेदन का विवरण | |
| 6 | यात्रा भत्ता रजिस्टर | रजिस्टर | अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत यात्रा देयकों का विवरण | |
| 7 | आकस्मिक अवकाश | रजिस्टर | आकस्मिक अवकाश का विवरण | |

| | | | | |
|----|---------------------|---------|---|--|
| 8 | वेतन रजिस्टर | रजिस्टर | वेतन भत्तों की प्रविष्टि | |
| 9 | सा. भविष्य निधि | रजिस्टर | मासिक कटौती का विवरण | |
| 10 | विभागीय भविष्य निधि | रजिस्टर | चतुर्थांश श्रेणी कर्मचारी के विभागीय भविष्य निधि कटौती का विवरण | |
| 11 | चिकित्सा रजिस्टर | रजिस्टर | अधिकारी / कर्मचारी के चिकित्सा देयक का विवरण | |
| 12 | भाड़ा अभिलेख | रजिस्टर | शासकीय आवास किराये का विवरण | |
| 13 | पेंशन रजिस्टर | रजिस्टर | पेंशन प्रकरणों का विवरण | |
| 14 | इन्कम्बेंसी | रजिस्टर | अधिकारी / कर्मचारी की इन्कम्बेंसी का विवरण | |
| 15 | आय-व्यय पत्रक | रजिस्टर | मासिक आय-व्यय के आंकड़ों की प्रविष्टि | |
| 16 | देयक | रजिस्टर | कोषालय को प्रस्तुत किये जाने वाले देयक की प्रविष्टि | |

(स) लेखा कक्ष द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेखों का विवरण

| स. क्रं. | दस्तावेज का नाम | दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि | दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण (Nature & Content) | अभिलेखों की अवधि |
|----------|------------------------------------|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | लोक निर्माण संहिता | पुस्तक | लोक निर्माण कार्य से संबंधित विवरण | |
| 2 | लोक निर्माण लेखा संहिता | पुस्तक | लोक निर्माण लेखा संबंधि विवरण | |
| 3 | म.प्र. वित्त नियम | पुस्तक | लोक निर्माण कार्य के वित्तीय अधिकार | |
| 4 | कार्य की प्रचलित दरें (सी.एस. आर.) | पुस्तक | लोक निर्माण कार्य से संबंधित विस्तृत दरें | |
| 5 | भंडार नियम | पुस्तक | लोक निर्माण भंडार के विस्तृत नियमावली | |
| 6 | भंडार क्रय नियम | पुस्तक | भंडार क्रय से संबंधित नियम | |
| 7 | फार्म 80 (Telly) | फार्म | लेखा तैयार किया जाता है समस्त उपखंड एवं संभाग का आय-व्यय | |
| 8 | फार्म 64 | फार्म | संभाग के समस्त शिर्षों का मासिक खर्च | |
| 9 | निविदा पंजी | फार्म | संभाग से आमंत्रित सभी निविदाओं की जानकारी | |
| 10 | निविदा खोलने का रजिस्टर | फार्म | निविदा खोलने के पश्चात् प्राप्त निविदाओं की आयटम | |

| | | | | |
|----|--------------------------------|---------|---|--|
| | | | एवं दर सहित जानकारी | |
| 11 | अनुबंध पंजी | रजिस्टर | ठेकेदार से किये जाने वाले अनुबंध की माहिती | |
| 12 | मनीरसीद प्राप्ती | रजिस्टर | कोषालय से प्राप्त होने के पश्चात् प्रविष्टि | |
| 13 | चेक बुक प्राप्ती | रजिस्टर | कोषालय से प्राप्त करने के पश्चात् प्रविष्टि | |
| 14 | ठेकेदारों का खाता | रजिस्टर | ठेकेदारों के बिल भुगतान पश्चात् सभी की विस्तृत जानकारी | |
| 15 | ठेकेदारों के पंजीकरण | रजिस्टर | प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता कार्यालय में रजिस्ट्रेशन किये गये ठेकेदारों की जानकारी सभी श्रेणी के | |
| 16 | विविध अग्रिम पंजी | रजिस्टर | संभाग से दिये गये अग्रिम ठेकेदार/कर्मचारी/अन्य संभाग आदि की माहिती | |
| 17 | सिविल डिपाजिट | रजिस्टर | ठेकेदारों के रनिंग बिलों से वसूली गई राशि | |
| 18 | विविध जमा | रजिस्टर | अन्य संभाग एवं ठेकेदारों के विरुद्ध विविध जामा | |
| 19 | केस (Cess) कर्मकार कल्याण उपकर | रजिस्टर | भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्य पर लगाया गया 1: कर राशि | |
| 20 | फार्म-12 (भण्डार) | फार्म | संभाग एवं उपसंभाग में रखे गये भण्डार सामग्री की जानकारी | |
| 21 | फार्म-15 (टी.एण्ड पी.) | फार्म | संभाग एवं उपसंभाग में रखे गये टी.एण्ड पी. की जानकारी | |
| 22 | भण्डार के गोपनीय जांच | रजिस्टर | भण्डार सामग्री की गोपनीय जांच बाबत् | |
| 23 | कोर्ट प्रकरण | रजिस्टर | संभाग में चल रहे कोर्ट केस प्रकरणों की माहिती | |
| 24 | आय-व्यय प्रत्रक | रजिस्टर | संभाग में चल रहे निर्माण कार्य के मासिक आय एवं व्यय, कुल व्यय आदि की माहिती | |
| 25 | आयकर कटोत्रा | रजिस्टर | ठेकेदार के रनिंग बिलों से 2.40% आयकर वसूली | |
| 26 | वाणिज्य कर | रजिस्टर | ठेकेदार के बिलों से 2.30% वाणिज्य कर वसूली | |
| 27 | चेक कटोत्रा | रजिस्टर | संभाग एवं उपसंभाग में चेक काटने के पश्चात् शीर्ष सहित वसूली संबंधी | |
| 28 | चालान रजिस्टर | रजिस्टर | संभाग से प्राप्त चेक एवं नगद राशि कोषालय में जमा करने बाबत् | |

| | | | | |
|----|--|---------|--|--|
| 29 | रेमिटेन्स | रजिस्टर | चालान जमा करने के पश्चात् चालन नंबर वाईज जानकारी | |
| 30 | माप पुस्तिका | रजिस्टर | उपखंडों को छोटी एवं बड़ी माप पुस्तिकायें प्रदाय की जाती है। | |
| 31 | शिकायत/लोकायुक्त प्रकरण | रजिस्टर | संभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत पंजी | |
| 32 | कार्यपालन यंत्री द्वारा माप चेक (मेजरमेंट चेक) | रजिस्टर | ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों की 10 जांच कार्यपालन यंत्री द्वारा की जाती है। | |
| 33 | रिव्यू माप पुस्तिका | रजिस्टर | अंकेक्षणों द्वारा माप पुस्तिकाओं का रिव्यू किया जाता है। | |
| 34 | महालेखाकार निरीक्षण | रजिस्टर | निरीक्षण दल द्वारा राजस्व/सिविल कर कण्डीकाओं की जानकारी | |
| 35 | वर्क एबस्ट्रेक्ट | रजिस्टर | मरम्मत कार्य के व्यय की उपशीर्ष वार जानकारी | |
| 36 | योजनावार राजस्व वसूली का विवरण | रजिस्टर | प्रत्येक तालाब से की गई राजस्व वसूली की जानकारी | |
| 37 | पेयजल राजस्व वसूली का विवरण | रजिस्टर | पेयजल हेतु प्रदाय जल की राजस्व वसूली की जानकारी | |

7.0 बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण— सूची संलग्न है

| | | |
|---|--|--|
| 1 | सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता | |
| ● | सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य) | |
| ● | संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य) | |
| | संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री / प्रबंधकारिणी / कार्यकारिणी / अन्य) | |
| ● | स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य | |
| ● | मुख्य अधिकारी का नाम | |
| ● | मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते | |
| ● | बैठक की आवृत्ति | |
| ● | क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है? | |
| ● | क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं? | |
| ● | क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें) | |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता | |
| • | सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य) | |
| • | संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य) | |
| | संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/ अन्य) | |
| • | स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य | |
| • | मुख्य अधिकारी का नाम | |
| • | मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते | |
| • | बैठक की आवृत्ति | |
| • | क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है? | |
| • | क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं? | |
| • | क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें) | |

| | | |
|---|--|--|
| 3 | सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता | |
| • | सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य) | |
| • | संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य) | |
| | संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/ अन्य) | |
| • | स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य | |
| • | मुख्य अधिकारी का नाम | |
| • | मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते | |
| • | बैठक की आवृत्ति | |
| • | क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है? | |
| • | क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं? | |
| • | क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें) | |

| | | |
|---|--|--|
| 4 | सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता | |
| • | सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य) | |
| • | संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य) | |
| | संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/ अन्य) | |
| • | स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य | |
| • | मुख्य अधिकारी का नाम | |
| • | मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते | |
| • | बैठक की आवृत्ति | |
| • | क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है? | |
| • | क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं? | |
| • | क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें) | |

| | | |
|---|--|--|
| 5 | सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता | |
| • | सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य) | |
| • | संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य) | |
| | संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/ अन्य) | |
| • | स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य | |
| • | मुख्य अधिकारी का नाम | |
| • | मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते | |
| • | बैठक की आवृत्ति | |
| • | क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है? | |
| • | क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं? | |
| • | क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें) | |

8.0 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक प्राधिकरण का नाम : कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1
झाबुआ

सहायक लोक सूचना अधिकारी :

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | एस टी डी कोड | दूरभाष | | फैक्स | ई-मेल | पता |
|----------|------------------|--------------------|--------------|----------|------|-------|-------|----------------------------|
| | | | | कार्यालय | आवास | | | |
| 1 | श्री एच.के. मीणा | संभागीय लेखाधिकारी | 07392 | 244225 | — | — | — | जल संसाधन क्रं. 1 झाबुआ |

लोक सूचना अधिकारी :

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | एस टी डी कोड | दूरभाष | | फैक्स | ई-मेल | पता |
|----------|---------------------|------------------|--------------|----------|------|-------|-------|----------------------------|
| | | | | कार्यालय | आवास | | | |
| 1 | श्री बी.एम. ' शर्मा | कार्यपालन यंत्री | 07392 | 244225 | — | — | — | जल संसाधन क्रं. 1 झाबुआ |

विभागीय अपीलीय अथोरिटी :

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | एस टी डी कोड | दूरभाष | | फैक्स | ई-मेल | पता |
|----------|-----------------------|--------------------------|--------------|----------|------|-------|-------|---------------------|
| | | | | कार्यालय | आवास | | | |
| 1 | श्री डी.के. स्वर्णकार | अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) | 07292 | 411442 | — | — | — | जल संसाधन मण्डल धार |

9.0 निर्णय लेने की प्रक्रिया

| | | |
|-----|--|---|
| 9.1 | किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? (सचिवालय मैन्यूअल और बिजीनेस मैन्यूअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है) | निम्नानुसार |
| 9.2 | किसी किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या हैं अथवा निर्णय लेने के लिए किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है? | निम्नानुसार |
| 9.3 | लिए गए निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है? | आवश्यकता अनुसार पत्र के माध्यम से जनता को सूचित किया जाता है। |
| 9.4 | विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है? | कार्यालय में विभिन्न कार्यों के लिये अधिकारी नामांकित है। |
| 9.5 | अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी? | कार्यपालन यंत्री |

कार्यपालन यंत्री कार्यालय में निर्णय लेने की कार्य प्रणाली

| क्रं. | कक्ष | प्रारंभिक कार्य करने वाला कर्मचारी अधिकारी | प्रत्येक स्तर पर जांच करने वाला अधिकारी / कर्मचारी | अंतिम निर्णय लेने वाला अधिकारी |
|-------|--------------|--|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कार्य कक्ष | मानचित्रकार सहायक मानचित्रकार | संलग्न अधिकारी | कार्यपालन यंत्री |
| 2 | लेखा कक्ष | वरिष्ठ लेखा लिपिक अंकक्षक | संभागीय लेखा अधिकारी | कार्यपालनयंत्री |
| 3 | स्थापना कक्ष | सहायक लिपिक ग्रेड-2 | स्थापना लिपिक ग्रेड-1 | कार्यपालन यंत्री |
| 4 | आबियाना कक्ष | राजस्व / सिंचाई लिपिक | सहायक यंत्री | कार्यपालन यंत्री |

मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

| | |
|---|--|
| क्र. सं. | |
| विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है) | निविदा स्वीकृति, पंजीयन |
| दिशा-निर्देश (यदि हो तो) | निविदा समिति द्वारा |
| निर्णय लेने की प्रक्रिया | बैठक आयोजित कर |
| निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के नाम | <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यपालन यंत्री, 2. सहायक यंत्री (रूपांकन) 3. सहायक यंत्री (संबंधित) 4. संभागीय लेखापाल |
| निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना | |
| निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें। | निरंक |

10.0 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

| क्रं. | नाम | पदनाम | एस.टी. डी. कोड | दूरभाष | | फैक्स | ईमेल | पता |
|-------|---|---------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|--|
| | | | | कार्यालय | आवास | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | श्री बी०एम० शर्मा श्री जे०एन० शर्मा | कार्यपालन यंत्री | 07392 | 244225 | 243375 | 243910 | — | जल संसाधन क्रं. 1 |
| 2 | श्री नारायाण बारिया श्री मडिया बारिया | | | | | | | |
| 2 | श्री तेजकरण परमार श्री चैनसिंह परमार | —''— | —''— | —''— | — | — | — | अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड रानापुर |
| 3 | श्री हरकिशोर मालवीय श्री भगवानलाल मालवीय | —''— | —''— | —''— | — | — | — | अनुविभागीय अधिकारी थांदला |
| 4 | श्री बालकृष्ण राणे श्री दरियाव राणे | —''— | —''— | —''— | — | — | — | अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद |

11.0 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

| स0क्र0 | नाम | पदनाम | मासिक पारिश्रमिक | पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता | पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो । |
|--------|--|------------------|------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री बी0एम0शर्मा श्री जे0एन0शर्मा | कार्यपालन यंत्री | 47721 | — | — |
| 2 | श्री प्रकाशचन्द्र नीमा श्री कचरूमल नीमा | सहायक यंत्री | 47197 | — | — |
| 3 | श्री तेजकरण परमार श्री चैनसिंह परमार | सहायक यंत्री | 47322 | — | — |
| 4 | श्री हरकिशोर मालवीय श्री भगवानलाल मालवीय | सहायक यंत्री | 40292 | — | — |
| 5 | श्री बालकृष्ण राणे श्री दरियाव राणे | सहायक यंत्री | 35780 | — | — |
| 6 | श्री नारायण बारिया श्री मड़िया बारिया | सहायक यंत्री | 29194 | — | — |
| 7 | श्री भँवरलाल पोरवाल बाबुलाल पोरवाल | उपयंत्री | 39788 | — | — |
| 8 | श्री निर्मल कुमार जगन्नाथ शर्मा | उपयंत्री | 31276 | — | — |
| 9 | श्री केशरसिंह नायक कुंवरसिंह नायक | उपयंत्री | 32855 | — | — |
| 10 | श्री विनोद कुमार रामचंद्र चौहान | उपयंत्री | 29525 | — | — |
| 11 | श्री नरेन्द्रकुमार जगन्नाथ प्रजापति | उपयंत्री | 39788 | — | — |
| 12 | श्री संन्तोष कुमार मण्डलोई श्री एम0एल0मण्डलोई | उपयंत्री | 36127 | — | — |
| 13 | श्री प्रकाश बवेरिया ताजहिंग बवेरिया | उपयंत्री | 20145 | — | — |

| | | | | | |
|----|---|----------|-------|---|---|
| 14 | श्री मोहम्मद ईस्माईल सिद्दकी मो० सिद्दकी | उपयंत्री | 39751 | — | — |
| 15 | श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी एम०पी०चौधरी | उपयंत्री | 36127 | — | — |
| 16 | श्री रघुनाथ ढाबी श्री धन्नालाल ढाबी | उपयंत्री | 39751 | — | — |
| 17 | श्री धनश्याम लोहर उदयराम लोहार | उपयंत्री | 41372 | — | — |
| 18 | श्री अरुण कुमार अवस्थी श्री चैतराम अवस्थी | उपयंत्री | 40443 | — | — |
| 19 | श्री अरुण कुमार केलकर जी०आर०केलकर | उपयंत्री | 36372 | — | — |
| 20 | श्री श्रीपाल जैन श्री रतनलाल जैन | उपयंत्री | 31070 | — | — |
| 21 | श्री रजनीकांत अमरचंद झामर | उपयंत्री | 41705 | — | — |
| 22 | श्री नारायणलाल कन्हैयालाल पुरोहित | उपयंत्री | 39489 | — | — |
| 23 | श्री रमेशचन्द्र गुर्जर श्री रामदास गुर्जर | उपयंत्री | 34499 | — | — |
| 24 | श्री गट्टूसिंह सिसोदिया श्री एन०एस०सिसोदिया | उपयंत्री | 36848 | — | — |
| 25 | श्री विलास एस०परूलकर श्री श्रीपाद परूलकर | उपयंत्री | 33895 | — | — |
| 26 | श्री अनिल गुप्ता श्री एन०पी०गुप्ता | उपयंत्री | 29003 | — | — |
| 27 | श्री मुनीश्वरसिंह धाकरे श्री जगदीशचंद्र धाकरे | उपयंत्री | 34503 | — | — |
| 28 | श्री नरेन्द्र कुमार जोशी श्री लक्ष्मीनारायण जोशी | उपयंत्री | 40272 | — | — |
| 29 | श्री अमनसिंह भूरिया श्री दिता भूरिया | उपयंत्री | 19521 | — | — |
| 30 | श्री हुकुमचन्द वेलेकर श्री राजाराम वेलेकर | उपयंत्री | 38586 | — | — |
| 31 | श्री शोक्तअली नसरूला खान | उपयंत्री | 42337 | — | — |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|-------|---|---|
| 32 | श्री ऋषिराज श्री नाचौले प्रसाद चर्मकार | उपयंत्री | 9964 | — | — |
| 33 | श्री ओमप्रकाश श्री डी०एन० कदम | उपयंत्री | 16259 | — | — |
| 34 | श्री संतोष कुमार श्री सीतारामजी भावसार | मानचित्रकार | 33544 | — | — |
| 35 | श्री विजय कुमार श्री पन्नालाल महाजन | मानचित्रकार | 33894 | — | — |
| 36 | श्री चंद्रशेखर श्री गोविंदराव निक्कम | सहा०मानचित्रकार | 19548 | — | — |
| 37 | श्री गुलाबसिंह सिंगारे श्री जगनसिंह सिंगारे | सहा०मानचित्रकार | 14342 | — | — |
| 38 | श्री सुनील कुमार श्री रमेशचंद्र दीघे | अनुरेखक | 20431 | — | — |
| 39 | श्री नारायणसिंह श्री हीरालाल परिहार | अनुरेखक | 17468 | — | — |
| 40 | श्री सुरेशचसिंह यादव, अनुरेखक निलंबित | अनुरेखक | 5149 | — | — |
| 41 | श्री प्रदीप कुमार श्री वज्जाभाई मण्डोड | शीघ्रलेखक | 22164 | — | — |
| 42 | श्री सुनील कृष्णे श्री नारायणप्रसाद कृष्णे | स्टेनो टायपिस्ट | 13387 | — | — |
| 43 | श्री बहादुरसिंह मडुजी भाभर | सहायक वर्ग -2 | 18676 | — | — |
| 44 | श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी श्री रमणलाल जोशी | सहायक वर्ग -2 | 23207 | — | — |
| 45 | श्री मुकामसिंह सोलंकी श्री नानचू सोलंकी | सहायक वर्ग -2 | 18488 | — | — |
| 46 | सुश्री कमलाचौहान श्री मानसिंह चौहान | सहायक वर्ग -2 | 18476 | — | — |
| 47 | श्रीमती सुन्दर श्री कमजी खडिया | सहायक वर्ग -2 | 17611 | — | — |
| 48 | श्री लुणचंद श्री भेरूलाल मालवी | सहायक वर्ग -2 | 18213 | — | — |
| 49 | श्री बालूसिंह निनामा श्री पूंजाजी निनामा | सहायक वर्ग -2 | 22073 | — | — |

| | | | | | |
|----|---|---------------|-------|---|---|
| 50 | श्री कन्हैयालाल श्री रालुजी गामड | सहायक वर्ग -2 | 19311 | - | - |
| 51 | श्री मिखेल डामोर श्री छगनजी डामोर | सहायक वर्ग -2 | 18169 | - | - |
| 52 | श्री प्रकाशचंद्र भट्ट श्री चंद्रशेखर भट्ट | सहायक वर्ग -2 | 20594 | - | - |
| 53 | श्री भारतसिंह श्री गब्बाजी वसुनिया | सहायक वर्ग -2 | 21332 | - | - |
| 54 | श्री बाबूलाल डिण्डोर श्री कानजी डिण्डोर | सहायक वर्ग -2 | 18476 | - | - |
| 55 | श्री दरियावसिंह श्री रूपसिंह बघेल | सहायक वर्ग -3 | 16545 | - | - |
| 56 | श्री देवेन्द्रकुमार श्री भेरूलाल बसेर | सहायक वर्ग -3 | 17131 | - | - |
| 57 | श्री दिनेश कुमार श्री धन्नालाल डोंगी | सहायक वर्ग -3 | 16108 | - | - |
| 58 | श्री जगदीशचंद्र श्री गोपीलाल व्यास | सहायक वर्ग -3 | 16016 | - | - |
| 59 | श्री ओमप्रकाश धनारिया श्री दुर्गाशंकर धनारिया | सहायक वर्ग -3 | 13847 | - | - |
| 60 | श्री देवकृष्ण भट्ट श्री रामकृष्ण भट्ट | सहायक वर्ग -3 | 15068 | - | - |
| 61 | श्री प्रकाश कुमार कामलिया श्री बेनेडिक्ट कामलिया | सहायक वर्ग -3 | 14115 | - | - |
| 62 | श्री मनोज कुमार श्री जगदीशचंद्र शर्मा | सहायक वर्ग -3 | 13060 | - | - |
| 63 | श्री संतराम श्री रामचंद्र शाक्यवार | सहायक वर्ग -3 | 14561 | - | - |
| 64 | श्री रामसिंह श्री धनसिंह मौर्य | सहायक वर्ग -3 | 16351 | - | - |
| 65 | श्री ईशाक खान मोहम्मद खान | सहायक वर्ग -3 | 14368 | - | - |
| 66 | श्रीमती जमुना श्री रामलाल भावसार | सहायक वर्ग -3 | 15462 | - | - |
| 67 | श्रीमति विद्या गुप्ता श्री रमेशचन्द्र गुप्ता | सहायक वर्ग -3 | 18218 | - | - |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|-------|---|---|
| 68 | श्रीमति लता ब्यास श्री महेश ब्यास | सहायक वर्ग -3 | 15300 | - | - |
| 69 | श्री विसेन्ट डोडियार श्री जोसफ डोडियार | सिंचाई निरीक्षक | 20918 | - | - |
| 70 | श्री लुणचंद श्री नानुराम कुमरावत | अमीन | 15159 | - | - |
| 71 | श्री जहांगीर पठान मो०हुसेन पठान | अमीन | 14656 | - | - |
| 72 | श्री वागजी श्री कालूराम कटारा | अमीन | 17102 | - | - |
| 73 | श्री भैरूसिंह नकूम श्री कालूसिंह नकूम | अमीन | 19860 | - | - |
| 74 | श्री जी०एस०नायक श्री प्रेमसिंह नायक | अमीन | 19188 | - | - |
| 75 | श्री शंभुलाल पटेल श्री किसनाजी पटेल | अमीन | 19010 | - | - |
| 76 | श्री शंकरलाल श्री पन्नालाल राठौर | दफतरी | 13537 | - | - |
| 77 | श्री मनसुरसिंह श्री हरीलक्ष्मण परमार | भृत्य | 13398 | - | - |
| 78 | श्री किशोरसिंह श्री रणछोडसिंह परिहार | भृत्य | 12537 | - | - |
| 79 | श्री राजेन्द्र कुमार श्री रमेशचंद्र येवले | भृत्य | 13383 | - | - |
| 80 | श्रीमती गीताबाई पति श्री मदनसिंह राठोर | भृत्य | 12024 | - | - |
| 81 | श्री सुरेशचंद्र खराडी श्री मानसिंह खराडी | भृत्य | 11459 | - | - |
| 82 | श्री नटवरलाल श्री गोविन्दलाल उपाध्याय | भृत्य | 13537 | - | - |
| 83 | श्री रामचंद्र पाल श्री चंपालाल पाल | भृत्य | 13398 | - | - |
| 84 | श्री चांद खां सकुर खां | भृत्य | 10398 | - | - |
| 85 | श्री नन्दराम कुनिया श्री रामाजी कुनिया | भृत्य | 13398 | - | - |

| | | | | | |
|----|--|-------|-------|---|---|
| 86 | श्री सुभाषचंद्र श्री नन्दलाल राठौर | भृत्य | 13537 | — | — |
| 87 | श्री सुभाषचंद्र श्री दुर्गाशंकर पुरोहित | भृत्य | 13398 | — | — |
| 88 | श्री यग्नेश श्री भवानीशंकर उपाध्याय | भृत्य | 10588 | — | — |
| 89 | श्री जसवंतसिंह श्री मानसिंग डाबर | भृत्य | 11872 | — | — |
| 90 | श्री मानसिंह निनामा श्री रंगजी निनामा | भृत्य | 12537 | — | — |
| 91 | श्री रालु श्री रंगजी निनामा | भृत्य | 11872 | — | — |

12.0 प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

12.1

वर्ष 2010-11 :

| क्र. सं. | योजना का नाम | कार्य | कार्य प्रारंभ होने का दिनांक | कार्य के समापन का अनुमानित दिनांक | प्रस्तावित बजट | स्वीकृत बजट | शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में) | कुल व्यय | कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी |
|----------|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------|---|
| 1 | 23/2701 मध्यम परियोजना का रख रखाव कार्य | — | — | — | 31.00 | — | 17.60 | 17.60 | कार्यपालन यंत्री जल संसाधन कं.1 झाबुआ |
| 2 | 45/2702 लघु सिंचाई कार्यो का रखरखाव कार्य | — | — | — | 179.32 | - | 84.12 | 83.45 | —''— |
| 3 | 41/4702 डीएडीपी नाबार्ड | तम्बोलिया तालाब | 3.12.2009 | 2.9.2010 | 70.00 | 80.00 | 74.37 | 72.24 | —''— |
| | —''— | बजरंग सागर तालाब | 2.12.2009 | 1.9.2010 | 65.00 | 80.00 | 79.37 | 55.10 | —''— |
| | —''— | परेवा तलाब | 5.02.2010 | 4.12.2011 | 150.00 | 14.00 | 111.76 | 108.95 | —''— |
| | | रतनाली तालाब | 15.01.2009 | 14.12.2009 | 8.61 | 7.98 | 8.61 | 8.61 | |
| 4 | —''— 41/4702 टीएडीपी | खटावला तालाब | 17.08.2010 | 16.05.2011 | 10.00 | 80.00 | 89.16 | 76.94 | —''— |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | पटेल का नाका तालाब | 12.11.2009 | 11.10.2010 | 75.00 | 80.00 | 58.62 | 52.14 | |
| | | मथुरिया तालाब | 25.02.2010 | 24.01.2011 | 65.00 | 97.00 | 96.34 | 67.92 | |
| | | असालिया तालाब | 16.03.2011 | 15.12.2011 | 80.00 | 80.00 | 30.00 | 30.00 | |
| | | लाडकी बैराज | 16.03.2011 | 15.03.2012 | 80.00 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 5 | 45 / 4702 ए.आय.बी. पी. गैर आदिवासी | बिजोरी तालाब | 25.02.2009 | 24.01.2010 | 10.00 | 5.00 | 19.00 | 12.87 | |
| 6 | —''— 41 / 4702 टीएडीपी | सर्वकार्य | - | - | 20.50 | 10.00 | 15.05 | 12.05 | —''— |
| | योग विभागीय | | | | 634.11 | 739.98 | 592.28 | 506.82 | —''— |
| 7 | 8443 डिपाजिट सांसदनिधि | सांसद निधि | - | - | - | - | 36.09 | 35.98 | —''— |
| | 8443 डिपाजिट राष्ट्रीय रोजगार गारंटी | म.गा.रा.रो. गारंटी | - | - | - | - | 2407.99 | 2017.72 | |
| | 8443 डिपाजिट जन सहभागिता | जन सहभागिता | - | - | - | - | 4.78 | 4.78 | |
| | 8443 डिपाजिट केन्द्रीय सहायता | केन्द्रीय सहायता | - | - | - | - | 638.99 | 254.91 | |
| | 8443 डिपाजिट | हर्टीकल्चर सहायता मद | - | - | - | - | 30.00 | 30.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|---|---|---|---|----------------|----------------|--|
| | 8443 डिपाजिट | सर्वे कार्य अनास स्टापडेम | - | - | - | - | 3.00 | 3.00 | |
| | महायोग डिपाजिट | | | | | | 3120.85 | 2346.39 | |

13.0 अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

| | |
|--|-------|
| ○ कार्यक्रम/योजना का नाम | निरंक |
| ○ कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा | |
| ○ कार्यक्रम का उद्देश्य | |
| ○ कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) | |
| ○ लाभार्थी की पात्रता | |
| ○ पूर्वापेक्षाएं | |
| ○ अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया | |
| ○ पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड | |
| ○ दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) | |
| ○ अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया | |
| ○ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें। | |
| ○ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) | |
| ○ अन्य शुल्क (जहां उचित हो) | |
| ○ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे) | |
| ○ संलग्नकों की सूची | |
| ○ संलग्नकों का प्रारूप | |
| ○ प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें | |
| ○ उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) | |

◇ लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

| विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक | लाभार्थी का नाम | अनुदान की राशि | वल्दियत | पात्रता का आधार | निवास | | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-----|--------------|------------|
| | | | | | जिला | शहर | मोहल्ला/गांव | मकान नम्बर |
| निरंक | | | | | | | | |

14.0 रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

| | |
|---|-------|
| ◇ कार्यक्रम का नाम | निरंक |
| ◇ प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुनें) | |
| ◇ उद्देश्य | |
| ◇ लक्ष्य (विगत वर्ष में) | |
| ◇ पात्रता | |
| ◇ पात्रता का आधार | |
| ◇ पूर्वापेक्षाएं | |
| ◇ प्राप्त करने की प्रक्रिया | |
| ◇ रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिए जाने के लिए निर्धारित समय सीमा | |
| ◇ आवेदन शुल्क | |
| ◇ आवेदन पत्र का प्रारूप | निरंक |
| ◇ संलग्नकों की सूची | |
| ◇ संलग्नकों का प्रारूप | |

◇ प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)

| विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक | प्राप्तिकर्ता का नाम | वैधता किस दिनांक तक है | वल्दियत | निवास | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------|-------|-----|--------------|----------|
| | | | | जिला | शहर | मोहल्ला/गांव | मकान नं. |
| निरंक | | | | | | | |

रियायत के लिए निम्न जानकारी भी उपलब्ध कराएं :

- | | |
|------------------------------|-------|
| ◇ दिए जाने वाले लाभ का विवरण | निरंक |
| ◇ लाभ के वितरण की प्रक्रिया | निरंक |

15.0 कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

अधिनियम

1. म.प्र. सिंचाई अधिनियम 1931
2. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999
3. म.प्र. लेखा संहिता

मैनुअल

1. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-1
2. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-2
3. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-3

नियम

1. म.प्र. सिंचाई अभियांत्रिकी एवं भू-भौतिकी (राजपत्रित भर्ती नियम 1965)
2. म.प्र. सिंचाई (अराजपत्रित) भर्ती नियम 1969

परिपत्र

1. म.प्र. जल संसाधन विभाग द्वारा जारी समस्त तकनीकी परिपत्र
2. म.प्र. जल संसाधन विभाग की प्रचलित एकीकृत दर सूची 2003
3. म.प्र. जल संसाधन विभाग के स्पेसिफिकेशन्स

16.0 इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

जल संसाधन विभाग की वेबसाइट www.mpwrld.nic.पद पर उपलब्ध है।

17.0 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण

| | |
|--|--|
| ● कार्यालय का सूचना पटल | |
| ● विभागीय वेबसाइट | |
| ● दस्तावेजों को प्राप्त करने हेतु सूचना काउंटर | |

18.0 अन्य उपयोगी जानकारियां

18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर.

सिंचाई योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं

विवरण

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

| | |
|--|-------------------------------|
| ● आवेदन पत्र (तथा संदर्भ के लिए एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति) | प्रारूप आवेदन पत्र संलग्न है। |
| ● शुल्क | विभाग के प्रावधान |

| | | |
|---|--|---|
| | | अनुसार |
| ● सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाए- कुछ टिप्स | | लिखित आवेदन द्वारा |
| ● सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया | | अपीलीय अधिकारी अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल धार |

18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में .

| | |
|--|-------|
| ● प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण | निरंक |
| ● प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा | |
| ● प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य | |
| ● प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) | |
| ● लाभार्थी की पात्रता | |
| ● पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो) | |
| ● अनुदान/सहायता (यदि हो तो) | |
| ● दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) | |
| ● अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया | |
| ● आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें | |
| ● आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) | |
| ● अन्य शुल्क (जहां उचित हो) | |
| ● आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) | |
| ● संलग्नकों की सूची | |
| ● संलग्नकों का प्रारूप | |
| ● आवेदन करने की प्रक्रिया | |
| ● चयन प्रक्रिया | |
| ● प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी (यदि हो तो) | |
| ● प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका | |
| ● प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्य | |
| ● विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण | |

18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में जो कि मैनुअल 13 में न सम्मिलित हो.

| | |
|---|--|
| ■ प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण | |
| ■ प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता | |
| ■ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें | |
| ■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) | |
| ■ अन्य शुल्क (जहां उचित हो) | |

| | |
|--|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) | निरंक |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ संलग्नकों की सूची | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ संलग्नकों का प्रारूप | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन करने की प्रक्रिया | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदन द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं) | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन की सारी प्राथमिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आदि जारी करने के लिए निर्धारित समय अवधि | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो) | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो) | |

18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में

| | |
|--|---|
| ■ पंजीयन का उद्देश्य | विभागीय कार्यों को वर्ग-स श्रेणी के ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाना |
| ■ आवेदक की पात्रता | विभागीय नियमानुसार |
| ■ पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो) | व्यवसायिक कार्यक्षमता |
| ■ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें | संभागीय लेखापाल |
| ■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) | विभाग द्वारा निर्धारित |
| ■ अन्य शुल्क (जहां उचित हो) | — |
| ■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे) | विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र |
| ■ संलग्नकों की सूची | निर्धारित जानकारी से संबंधित सहपत्र |
| ■ संलग्नकों का प्रारूप | निर्धारित है। |
| ■ आवेदन करने की प्रक्रिया | निर्धारित प्रपत्र में आवेदन वांछित अभिलेखों का प्रमाणित प्रति सहित। |
| ■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं) | आवेदन का विभाग के नियमानुसार परीक्षण किया जाता है। |
| ■ प्रभावी रहने की समय-सीमा (यदि हो तो) | पांच साल |
| ■ नवीनीकरण की प्रक्रिया | समय सीमा समाप्त होने के तीन माह पूर्व आवेदन देने पर |

18.6 लोक प्राधिकरण (Municipal Corporation, Trade tax, entertainment tax, आदि) द्वारा टैक्स लेने के संबंध में.

| | |
|---|-------|
| ■ टैक्स का नाम व विवरण | निरंक |
| ■ टैक्स लेने का उद्देश्य | |
| ■ टैक्स निर्धारण करने के लिए मापदंड व प्रक्रिया | |
| ■ बड़े (major) डिफाल्टर्स की सूची | |

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन आदि के संबंध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद्/UPCL द्वारा दी जा सकती है)

| | |
|---|--|
| ■ आवेदक की पात्रता | |
| ■ पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो) | |
| ■ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें | |
| ■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) | |
| ■ अन्य शुल्क/देय (जहां उचित हो) | |

| | |
|--|-------|
| ■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) | निरंक |
| ■ संलग्नों की सूची | |
| ■ संलग्नों का प्रारूप | |
| ■ आवेदन करने की प्रक्रिया | |
| ■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं) | |
| ■ बिल में प्रयोग किए गए शब्दों का विवरण | |
| ■ बिल तथा अन्य सेवाओं के संबंध में समस्या होने की स्थिति में सम्पर्क सूचना | |
| ■ टेरिफ तथा अन्य देय | |

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण

निरंक

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत)

1. आवेदक का नाम
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है
3. दूरभाष क्रमांक
4. आवेदन देने का दिनांक
5. कार्यालय का नाम
6. चाही गई जानकारी का विवरण
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाले प्रोसेस फी-रूपये 5/- नगद/स्टॉम्प (बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं)
रसीद क्रं. एवं दिनांक
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं- हाँ/नहीं
यदि हो तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

टीपः- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 5 का स्टॉम्प चस्पा करते हुए रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें। (बीपीएल सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नहीं)

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना
अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)
पदनाम (रबर सील)
दिनांक.....

**15-Facility available (Libaraty, public conuter etc) to Citizen for
information U/S 4.1 (b) (xvi)**

| S.No.` | Facility | Name of Incharge | Duration of opening(time to be given) | Contact no. Telephone No. |
|--------|----------------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Public counter | Sh. B.M.Sharma (Executive Engineer) | 4 PM to 5 PM | 244225 |

